



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आश्विन 1938 (श0)
(सं0 पटना 785) पटना, शुक्रवार, 23 सितम्बर 2016

सं0 3ए-2-वे०पु०-07/2015—7577/वि0

वित्त विभाग

संकल्प

23 सितम्बर 2016

विषय:—समूह-‘घ’ के कर्मियों के लिए संकल्प संख्या-3972, दिनांक 12/05/16 के आलोक में वेतन निर्धारण सम्बन्धी स्पष्टीकरण।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3972, दिनांक-12/05/2016 के द्वारा समूह ‘घ’ के कर्मियों को दिनांक 01/01/1996 से संशोधित एवं दिनांक 01/01/2006 से अनुमान्य वेतनमान के संबंध में निर्णय लिया गया है।

2. किन्तु उक्त संकल्प में दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से पुनरीक्षण के क्रम में फिटमेंट लाभ की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण संशय की स्थिति बनी हुई है। साथ ही, संकल्प संख्या-3972, दिनांक 12/05/2016 में निर्धारण लाभ का प्रावधान नहीं होने के कारण दिनांक 01/01/1996 के पूर्व नियुक्त समूह ‘घ’ कर्मियों को पूर्व के वेतन में कमी आ रही है।

उक्त उत्पन्न स्थितियों के फलस्वरूप समूह ‘घ’ कर्मचारी संघ द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें विसंगतियों को दूर किए जाने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त अभ्यावेदन पर विचारण उपरान्त पाया गया कि संशोधित वेतनमान के आधार पर मूलकोटि, प्रथम ए०सी०पी०, द्वितीय ए०सी०पी० प्राप्त कर्मों का वेतन पुनरीक्षण हेतु अनुमान्य फिटमेंट लाभ को स्पष्ट करने की आवश्यकता है जिससे वेतन निर्धारण में कोई त्रुटि न रह सके।

4. सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि-

- (i) वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3972, दिनांक 12/05/2016 के आलोक में दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से स्वीकृत वेतनमान 2610-4000/- अथवा 2650-4000/- वाले समूह 'घ' कर्मियों को ए०सी०पी० की अनुमान्यता के क्रम में निर्धारण लाभ अनुमान्य होगा।
- (ii) दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से वेतनमान पी०बी०-1 + ग्रेड-पे 1800/- में पुनरीक्षण के उपरान्त अपुनरीक्षित वेतनमान 2610-4000/2650-4000 वाले कर्मों को तीन वेतन वृद्धि, 2750-4400/- वाले कर्मों को दो वेतन वृद्धि तथा 3050-4590/- वाले कर्मों को एक वेतन वृद्धि अनुमान्य होगा।
- (iii) वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3972, दिनांक 12/05/2016 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राहुल सिंह,

सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 785-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>